



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.11.2021

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा रोजगार व बैंक से लोन दिलवाने व के.वाई.सी कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों रूपये की ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 06 कापी/डायरी/रजिस्टर, 20,000 रुपये नकद, 18 सिम, 01 गूगल पे स्केनर, 09 एटीएम व डेबिट कार्ड, 04 आधारकार्ड व 1 वोटरकार्ड बरामद।

दिनांक 02.11.2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा रोजगार व बैंक से लोन दिलवाने व के.वाई.सी कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों रूपये की ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त प्रियान्शु प्रखर पुत्र गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा निवासी बेरई, थाना हथौली, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार वर्तमान पता पैनोसिस सोसायटी, सेक्टर-70, टावर के-1101 थाना फेस-3, जिला गौतमबुद्धनगर को उसके वर्तमान निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 06 कापी/डायरी/रजिस्टर, 20,000 रुपये नकद, 18 सिम, 01 गूगल पे स्केनर, 09 एटीएम व डेबिट कार्ड, 04 आधारकार्ड व 1 वोटरकार्ड बरामद किये हैं।

अभियुक्त का विवरण:

प्रियान्शु प्रखर पुत्र गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा निवासी बेरई, थाना हथौली, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार वर्तमान पता पैनोसिस सोसायटी, सेक्टर-70, टावर के-1101 थाना फेस-3, जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1121/21 धारा 420/406 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.04 मोबाइल फोन

2.01 लैपटॉप

3.06 कापी/डायरी/रजिस्टर

4.20,000 रुपये नकद

5.18 सिम

6.01 गूगल पे स्केनर

7.09 एटीएम व डेबिट कार्ड

8.04 आधारकार्ड

9.1 वोटरकार्ड



#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की एएचटीयू पुलिस टीम द्वारा पिता की डाँट से नाराज होकर घर छोड़कर शैल्टर होम में रह रही 04 नाबालिग लड़कियों को पिता से वापस मिलाया।

दिनांक 02.11.2021 को कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की एएचटीयू पुलिस टीम द्वारा साई कृपा शैल्टर होम सेक्टर-12/22 में जाकर बच्चों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान 04 लड़कियां जिनकी उम्र 04 वर्ष से 12 वर्ष के बीच थी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी माता नहीं है तथा उनके पिता द्वारा उन्हें डाँट दिया गया था जिससे नाराज होकर वह सभी घर से बाहर निकल गये थे। उक्त लड़कियों द्वारा अपने पिता का फोन नम्बर दिया गया तो थाना एएचटीयू प्रभारी द्वारा उनके पिता से फोन पर बात की गई और लड़कियों के बारे में जानकारी देकर शैल्टर होम बुलाया गया। सभी लड़कियों द्वारा अपने पिता को पहचान लिया गया व अपने पिता के साथ घर जाने की इच्छा जताई गयी। उक्त लड़कियों को उनके पिता के सुपुर्द करने की अग्रिम कार्यावाही सी0डब्लू0सी0 द्वारा की जा रही है। लड़कियों के पिता द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

#यूपी 112 के रिस्पॉन्स टाइम में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर लगातार चौथी बार बना पूरे प्रदेश में नंबर-1।

माह अक्टूबर में पूरे प्रदेश के यूपी -112 के रिस्पॉन्स टाइम में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। विगत चार माह से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर प्रथम स्थान पर ही रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 400-450 इवेंट प्राप्त होते हैं जिनको कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से डायल 112 से 65 चार पहिया पीआरवी व 51 दो पहिया पीआरवी द्वारा पहुंचकर त्वरित सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट में 06 महिला पीआरवी भी चलती है एवं हाईवे पर सुरक्षा एवं त्वरित रिस्पॉन्स के लिए 04 पीआरवी ईस्टर्न पेरिफेरल तथा 02 पीआरवी यमुना एक्सप्रेस वे पर संचालित रहती हैं जिनके द्वारा हाईवे पर गस्त के साथ इवेंट की भी जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है विगत अक्टूबर माह में प्रदेश के यूपी 112 के रिस्पॉन्स टाइम में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर 02 बार "पीआरवी ऑफ द डे" का खिताब प्राप्त किया गया है। 1. दिनांक 12/10/2021 को थाना ईकोटेक प्रथम क्षेत्र अंतर्गत पार्क में बैठे व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, पीआरवी 4695 कर्मियों के द्वारा दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को मय बरामद तमंचे के थाना ईकोटेक प्रथम के सुपुर्द किया गया, जिस के संबंध में थाना ईकोटेक प्रथम पर मु0अ0सं0 983/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। 2. दिनांक 30/10/2021 को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत पीआरवी 1271 कर्मियों द्वारा गस्त के दौरान हाईवे पर खड़े ट्रकों से तीन व्यक्तियों को तेल चोरी करते हुए देखा, जिनके पास डीसीएम नंबर यूपी 14 जीटी 4649 भी था, पीआरवी को पास आता देख आरोपी रात्रि का फायदा उठाकर डीसीएम छोड़कर भाग गए। उक्त डीसीएम व दो खाली ड्रम एवं एक तेल से भरे ड्रम को विधिक कार्य हेतु स्थानीय थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार हर नागरिक तक त्वरित पुलिस सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाता है जो आगे भी जारी रहेगा।